



## प्रेस नोट थाना ताजगंज जनपद आगरा ।

एसओजी व थाना ताजगंज पुलिस टीम द्वारा बड़ी कार्यवाही करते हुये अवैध असलाहों की तस्करी व वाहनों की चोरी करने वाले 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे 05 अवैध तमंचा व चोरी की 02 बुलेट मोटर साइकिल बरामद....

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा द्वारा गये आदेशानुसार जनपद में अवैध शराब, असलाह, जुआ, सट्टा, वाहन चोरी आदि आपराधिक अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में, क्षेत्राधिकारी सदर के सफल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी ताजगंज व एसओजी प्रभारी को टीम गठित कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये ।

इसी क्रम में दिनांक 07.07.2021 को गठित पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्ति/वाहन हेतु चैकिंग की जा रही थी । चैकिंग के दौरान मुखबिर खास द्वारा सूचना दी गयी कि अवैध असलाहों की तस्करी व मोटर साइकिल चोरी करने वाला गिरोह इस समय सौ फुटा रोड़ पर संतोषी माता के मन्दिर के पास अवैध असलहों को बेचने की फिराक में खड़े हैं । यदि जल्दी की जाए तो पकड़े जा सकते हैं ।

### ➤ पुलिस टीम द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण:-

मुखबिर खास द्वारा प्राप्त सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुये पुलिस टीम तत्काल बताये स्थान पर पहुँची । पुलिस टीम द्वारा मन्दिर के पास खड़े 03 अभियुक्तों को चारों ओर से घेर-घोट कर एक बारगी की दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया गया । अभियुक्तगण के कब्जे से 05 अदद अवैध देशी तमंचा, 05 अदद अवैध कारतूस व 02 अदद बुलेट मोटर साइकिल बिना नम्बर चोरी की बरामद की गयी ।

### ➤ पूछताछ का विवरण:-

पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तगण से पूछताछ करने पर अपना नाम क्रमशः 01. छोटू चाहर उर्फ हेमन्त चाहर पुत्र गजेन्द्र सिंह चाहर निवासी इकराम नगर थाना कागारौल जनपद आगरा, 02. रामपाल पुत्र हाकिम सिंह निवासी सालेह नगर थाना खेरागढ़ जनपद आगरा व 03. प्रहलाद पुत्र श्याम सिंह निवासी नगला विष्णु थाना खेरागढ़ जनपद आगरा बताया । बरामद असलाह व मोटर साइकिल के



सम्बन्ध में पुलिस टीम द्वारा कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि ये असलाह हमने राहुल पचौरी निवासी गुणा थाना अछनेरा आगरा से लिये हैं। राहुल अवैध तमंचों की खरीद फरोख्त करता है व दोनों बुलेट अपने दोस्त राजीव चाहर निवासी नारौल थाना कागारौल जनपद आगरा से साथ मिलकर चोरी की थी। हम सभी लोग अवैध असलाह व मोटर साइकिल बेचने की फिराक में यहाँ खड़े थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण अत्यन्त शातिर एवं आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। अभियुक्तगण व इनके साथियों द्वारा भारी मात्रा में अवैध पिस्टल, तमंचे एवं जयपुर से चोरी की गयी बुलेट मोटर साइकिलों की खरीद फरोख्त की गयी है। अभियुक्तगणों के कुछ साथी राजस्थान एवं दिल्ली के होना प्रकाश में आया है, जिनके बारे में अभियान जारी रखते हुये अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्तगण से बरामदगी के सम्बन्ध में थाना ताजगंज पर 1. मु0अ0सं0 452/21 धारा 41/102 सीआरपीसी व धारा 411/414 भादवि, 2. मु0अ0सं 453/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, 3. मु0अ0सं0 454/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, 4. मु0अ0सं0 455/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

## ➤ गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

01. छोटू उर्फ हेमन्त चाहर पुत्र गजेन्द्र सिंह चाहर निवासी इकराम नगर थाना कागारौल जनपद आगरा
02. रामपाल पुत्र हाकिम सिंह निवासी सालेह नगर थाना खेरागढ़ जनपद आगरा।
03. प्रहलाद पुत्र श्याम सिंह निवासी नगला विष्णु थाना खेरागढ़ जनपद आगरा।

## ➤ बरामदगी का विवरण:-

01. 05 अदद अवैध देशी तमंचा।
02. 05 अदद अवैध जिन्दा कारतूस।
03. 02 अदद बुलेट मोटर साइकिल बिना नम्बर चोरी की।

## ➤ आपराधिक इतिहास:-

### ● अभियुक्त छोटू उर्फ हेमन्त चाहर

01. मु0अ0सं0 452/21 धारा 41/102 सीआरपीसी व धारा 411/414 भादवि थाना ताजगंज जनपद आगरा
02. मु0अ0सं 453/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना ताजगंज जनपद आगरा।





## ● अभियुक्त रामपाल

01. मु0अ0सं0 452/21 धारा 41/102 सीआरपीसी व धारा 411/414 भादवि थाना ताजगंज जनपद आगरा

02. मु0अ0सं0 454/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना ताजगंज जनपद आगरा ।

## ● अभियुक्त प्रहलाद

01. मु0अ0सं0 452/21 धारा 41/102 सीआरपीसी व धारा 411/414 भादवि थाना ताजगंज जनपद आगरा ।

02. मु0अ0सं0 455/21 धारा 3/25 आर्म्स थाना ताजगंज जनपद आगरा ।

## ➤ गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

01. प्रभारी निरीक्षक श्री उमेश चन्द्र त्रिपाठी थाना ताजगंज जनपद आगरा ।

02. निरीक्षक श्री नरेन्द्र सिंह प्रभारी सर्विलांस टीम जनपद आगरा ।

03. उ0नि0 श्री कुलदीप दीक्षित प्रभारी एसओजी टीम जनपद आगरा ।

04. उ0नि0 श्री केवल सिंह थाना ताजगंज जनपद आगरा ।

05. कां0 धर्मेन्द्र सिंह थाना ताजगंज जनपद आगरा ।

06. कां0 आकाश कुमार थाना ताजगंज जनपद आगरा ।

07. है0कां0 आदेश त्रिपाठी सर्विलांस सेल जनपद आगरा ।

08. है0कां0 रियाज खान, कां0 लोकेश, कां0 विपिन सिंह, कां0 मानवेन्द्र उपाध्याय, कां0 वसीम, कां0 मुकुल शर्मा व कां0 राकुल एसओजी टीम जनपद आगरा ।

मीडिया सेल जनपद आगरा ।

